



## रोजाना एक प्रश्न



श्री अभिषेक शर्मा, कनिष्ठ सहायक  
रा०उ०मा०वि० दडावट  
ब्लॉक-आसींद जिला भीलवाड़ा

## आज का टॉपिक

डीडीओ द्वारा SIPF NEW पोर्टल पर नवनियुक्त कर्मचारी का डेटा सबमिट करते ही एम्प्लॉई आई डी कैसे प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करें

**SIPF(NEW) पोर्टल की जानकारी :** राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा फिलहाल ही पूर्व के SIPF पोर्टल को अपडेट कर न्यू वर्जन SIPF (NEW) के नाम से चालू किया है जिसमें समस्त कार्मिकों के डेटा SIPF (NEW) पर प्रदर्शित होने लग गए। और समस्त कार्य ऑनलाइन हो गए। इस पोर्टल पर आप अपना GA55 एवं SI & GPF Bag तथा NPS अन्य आवश्यक जानकारी प्रति सेकंड में देख सकते हैं व डाऊनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही लोन प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने से समस्त कार्मिकों के लिए हितकारी रहा है।

**SIPF(NEW) एम्प्लॉई आई डी का प्रोसेस :**

- सर्वप्रथम आहरण एवं वितरण अधिकारी की आईडी & पासवर्ड से SSO लॉगिन करें।
- साइट Log-in होने के उपरांत जैसा कि पहले आप SIPF पर क्लिक करते थे अब आपको उस पर क्लिक नहीं कर के SIPF(NEW) पर क्लिक करना है जिसमें थोड़ी देर में वह LOADING जैसा लिखा आएगा। उसके उपरांत DDO की सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे ही सम्पूर्ण रूप से डेटा फेच हो जाये उसके उपरांत आपको SWITCH ROLE में DDO Role करना है। जैसे ही आप DDO रोल पर क्लिक करते हैं आपके सामने DDO Dashboard प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्न ऑप्शन होंगे।

- 1. EMPLOYEE ( ) 2. GPF ( ) 3. SI ( )

आपको एम्प्लॉई पर क्लिक करना है, क्लिक करने पर उसमें निम्न ऑप्शन दिखाई देंगे।

- 1. CREATE ( ) 2. EMPLOYEE DETAIL ( ) 3. EMPLOYEE TRANSFER ( )
- 4. PROFILE ( ) 5. Update Nomination ( )

इनमें आपको एम्प्लॉई आई डी बनाने के लिए CREATE पर क्लिक करना है उसके उपरांत Create Employee Profile में अनेक ऑप्शन आएंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

**EMPLOYEE :**

- 1. BASIC DETAILS
- 2. CONTACT DETAILS
- 3. SERVICE DEATILS
- 4. SCHEME DETAILS
- इन सभी ऑप्शन में 10 से 11 कॉलम की पूर्ति करने के उपरांत जो ऊपर स्कीम के ऑप्शन का विशेष ध्यान देना है यदि आप उस ऑप्शन को फीड नहीं करते हैं तो सारे डेटा अपडेट नहीं होगा और आपकी एम्प्लॉई आईडी प्राप्त नहीं होगी। अतः आप स्कीम के ऑप्शन में NPS सेलेक्ट (कर्मचारी के अनुसार) करें और नंबर 0 और दिनांक जोड़निंग डेट लिख के सबमिट करते ही आपको आपकी एम्प्लॉई आईडी तुरंत प्राप्त हो जाएगी।
- DDO ROLE पर क्लिक करने पर आपके विद्यालय की राज्य बीमा एवम GPF तथा NPS कार्मिकों के डेटा में संशोधन व एम्प्लॉई आईडी बनाने व अन्य समस्त कार्य इस रोल में किये जाते हैं

नोट - यदि SIPF(NEW) DDO ROLE अपडेट नहीं है तो लेटरपेज पर DDO का निम्न विस्तृत विवरण मेल करें

- |                 |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1. नाम कर्मचारी | 2. एम्प्लॉई आई डी | 3. DDO CODE         |
| 4. EMAIL आई डी  | 5. मोबाइल नंबर    | 6. कार्यग्रहण आदेश। |

**NOTE**

उक्त सामग्री सामान्य जानकारी हेतु साथियों को उपलब्ध कराई गई है, जो राज्यादेशों और अन्य कारणों से असंगत हो सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यादेश के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जावे, Paymanager Info समूह के सदस्य और rajsevak.com किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होंगे.